

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 569] नई दिल्ली: मंगलवार, दिसम्बर 26, 1978/पोष 5, 1900
No. 569] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 1978/PAUSA 5, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आवेष

नई दिल्ली 26 दिसम्बर, 1978

का. आ. 735 (अ).—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आवेष
सं. का. आ. 14(अ) तारीख 3 जनवरी, 1974 (जिसमें इसमें इसका पश्चात् उक्त
आवेष कहा गया है, द्वारा मैसर्स हिन्द साइकिल लिमिटेड, मुम्बई के गाजियाबाद
एकक नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध 2 जनवरी, 1979 जिसमें यह विन भी
सम्मिलित है, तक की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया था ;

और केंद्रीय सरकार की राय है कि यह लोक हिस्से में है कि उक्त आवेष दो वर्ष की
और अवधि तक प्रभावी बना रहे ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 2 जनवरी, 1981 जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तक की और अर्थात् तक प्रभावी बना रहेगा।

[फा. सं. 2/16/73-सी.पू.सी.]

पी. सी. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 26th December, 1978

S. O. 735(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S. O. 14(E) dated the 3rd January, 1974 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as the Ghaziabad unit of Messrs. Hind Cycles Limited, Bombay, had been taken over for a period upto and inclusive of the 2nd January, 1979;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 2nd January, 1981.

[F. No. 2/16/73-CUC]

P. C. NAYAK, Joint Secy.